धर्मरत्न वज्राचार्य सुरत श्री महाविहार

DH160

२३९

ॐ भ्रू॥ ॐ क्रीं ह्रूं विननन्दैं क्रुंकुं रु द्दू स्वाहा॥ ध्वमन्त्र ग्वा लसवाल्यं नक विङ्कूनास॥ ॐ पिन्स विय धुंमद्यौ लि स र्वप्र
डवनासनिपस्वाहाः॥ ध्वमंत्रतुजयत्रसद्दंङ्कूमनवाल्यं विवर्कनस्यंविङ्कूनास॥

१ ध्वमंत्रउ लगसिहलसवाल्यं
कापनसवालविदगलसकावा
यर्क्ष विद्दलाउमास, ५ क्रनाध्वनवाउ॥

ङाङ श्रावं

दि ० १ दथूसधःयाहान कुतिनवाय॥
० पाद्धं पौर्ह, ङम दकायविनसपान
विर्हँ स्यँ, कोखायर्क, याकासनत
विरवमगाल नानाङील, लापान
याङांहि दनकाथ॥

दा थदथूसतस्वी, मूवामइविस्यामिसा
यामनाविस्यँ, लाकू कापासविस्यँ
कोखायर्क याका वानसनत, ञ
विवालनातनङा, मवइविनाङख
तीकयाहि॥

द्रु १ थदथूसतस्वी वाकडस कारूपवास्वी
लाकनूयोङानत लथूकापनतयानाव
डाङा गसविनाङानय, अँसवानइया
दथूङनङा॥

द्री थदथूसतस्वी, कपूल ग्रीखँ दकलुनि
मलिनवास्वी, कोखायर्क छ्वनाये इ,
छाक २ दङायाकाखँन नासनङाथ॥

आस्र न

दु ० थदथूसतस्वी का दुकायजिनसवीव
न्पनवँकमनि, कोंगिलासूँपा कनु
थानसथूमोथाय थनँनपाह पँवसूतन
हिहँ कोखायर्क थ्रुाकासवानियालय
मांगनोनतनङा, मनकयाहयँमइ॥

तङमेङ

द्रि थदथूसतस्वी, हगुलि ङानिनवास्वी
ग्योधाननपाङ नूखाकू मगनय, म
नूङआदिन, पसूलाविनासिकयान
ङा॥

ङ ति ० थदद्वथसतस्वी ध्रुयाहिनयाथैङाधनवाना
थासनय धूनधूयमहू, थङाकनतयाङा, धू
लङानसा, मवनमखनर्कखयदू दहवि
यनङा॥

ङाङ ० श्राव

ङा थदथूसतस्वी काविया हगुलि
नवास्वी, गधूयानगलयाछुगुलिस
पानविहँ कोखायर्क, छायवाङ
हुङीनीवाङाबानङा॥

दथुसनसी, हृभनतयाडे, दथुस
नुडूले गनसी कोखायकेइ, छुस
नयेइ, लखनासिकम्क्याद्याब
नीनासनज्ञा॥

१०

दथुसनसी ०



थ्व दथुसनस्य कोखायाउआग,
वनगना रदथूआनङ्गा॥

थ्व दथुसनय, दँ ाोपद्रव
मानउाोयागंत्र, नय, माहा
माय् पिध्याह्यासिकया॥

५३८

धमरत्न बज्राचाय गुस्त श्री महाविहार DH160

श्री

श्रीवज्रवारा

श्री

श्री

हकनीथिक

ॐ नमः श्री वज्रवानाचो॥ ॥लगाकीतिदिवज्रांमूक कं शा॥ ध्यादहिनकमको

वतातमर्गोक्षुताभीघु ८